



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

22 श्रावण 1935 (श0)  
(सं0 पटना 646) पटना, मंगलवार, 13 अगस्त 2013

---

सामान्य प्रशासन विभाग

आदेश

6 अगस्त 2013

सं0 3/एम0-32/2013/सा0प्र0-12951—विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सेवानिवृत्त पदाधिकारियों तथा कर्मियों की सेवायें संविदा पर लिए जाने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का संकल्प संख्या-2804 दिनांक 29.03.2010 निर्गत है जिसकी कंडिका-4 में वैसे पदों का उल्लेख किया गया है जिन पर सेवानिवृत्त कर्मियों को संविदा के आधार पर नियोजित किया जा सकता है।

2. उक्त विभागीय संकल्प संख्या 2804 दिनांक 29.03.2010 की कंडिका-6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत विभिन्न अतिरिक्त पदों को उक्त संकल्प की कंडिका-4 में सम्मिलित किया गया है, जिसके संदर्भ में अद्यतन विभागीय आदेश संख्या-11338 दिनांक 09.07.2013 निर्गत है।

3. उक्त के उपरांत विभिन्न विभागों द्वारा किये गये अनुरोध पर उनकी आवश्यकताओं और कठिनाईयों को देखते हुए, विभागीय संकल्प संख्या-2804 दिनांक 29.03.2010 की कंडिका-6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के उपभोग करते हुए, निम्नरूप से कुछ अन्य पदों को उक्त संकल्प की कंडिका-4 में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है—

(i) ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत मनरेगा योजनाओं के सफल क्रियान्वयन, नियंत्रण एवं प्रबंधन हेतु पंचायत तकनीकी सहायक, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं कार्यापालक अभियंता का पद;

(ii) गृह (आरक्षी) विभाग के अधीन वितंतु संचार व्यवस्था को बनाये रखने के उद्देश्य से बिहार पुलिस रेडियो संगठन, पटना के साक्षर सिपाही (तक0), सहायक अवर निरीक्षक (तक0), अवर निरीक्षक (तक0) एवं पुलिस निरीक्षक (तक0) स्तर का पद;

(iii) निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के अधीन पुलिस उपाधीक्षक का पद;

(iv) योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय) के अन्तर्गत तकनीकी पदाधिकारी एवं सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी का पद तथा

(v) सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में सूचना लिपिक, छायाकार, उर्दु सहायक, अनुवादक, वाहन चालक, आशुलिपिक एवं अनुसेवक का पद।

4. उक्त पदों पर संविदा के आधार पर सेवाएँ लिए जाने के संबंध में उपर्युक्त संकल्प संख्या-2804 दिनांक 29.03.2010 की कंडिका-5 में अंकित शर्तें एवं प्रक्रिया लागू रहेंगी एवं इन पदों पर सेवाएँ लेने के लिए संबंधित विभागों द्वारा ही नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
बशिष्ठ सिंह,  
सरकार के अपर सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 646-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>